



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2329]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2010/कार्तिक 18, 1932

No. 2329]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2010/KARTIKA 18, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

का.आ. 2756(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 633(अ), तारीख 22 मार्च, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर और वेल्लोर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के 0/000 कि.मी. से 81/600 कि.मी. (तिरुथानी-चेन्नई सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 25 अप्रैल, 2010 को "दि न्यू इण्डियन एक्सप्रेस" और "दिनामणि" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, दो आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी वित्तीय गणों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-205 के 0/000 कि.मी. से 81/600 कि.मी. तक (तिरुथानी-चेन्नई सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण/उप विभाजन संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तिरुवल्लुर	तिरुवल्लुर	एयाथुर	106/2	निजी	शुष्क	313	1025. महेन्द्र (1) जया चंद्रन (2) मणि (3) शिव चंद्रन (4) रागु (5) पुत्र कृष्णन
				115/4ए2	निजी	नम	80	96. शनमुगम पुत्र पूनगावन नाईकर
				116/1बी	निजी	नम	646	96. शनमुगम पुत्र पूनगावन नाईकर
				117/2बी	निजी	नम	1485	212. मणिवन्नन पुत्र जगन्नाथ नाईकर
				118/1बी	निजी	नम	2872	212. मणिवन्नन पुत्र जगन्नाथ नाईकर
				118/2बी	निजी	नम	1051	211. कन्नप्पा ग्रामणि पुत्र राजी ग्रामणि
				118/3बी	निजी	नम	2057	212. मणिवन्नन पुत्र जगन्नाथ नाईकर
				119/2	निजी	नम	65	84. गोविंदासामी नायडु पुत्र कन्निया नायडु
				120/1	निजी	नम	1827	96. शनमुगम पुत्र पूनगावन नाईकर
				122/1बी	निजी	नम	450	245. रागवन पुत्र दुरईसामी पिल्लई
				122/2बी	निजी	नम	875	23. कोथंदन पुत्र कुप्पु रेड्डी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				188/2	निजी	नम	330	753. बास्कर पुत्र गोविंदराज (1) कलावथी पत्नी बास्करण (2) दुरवासलु (3) राम मूर्थी (4) पुत्र अप्पावु नायडु बालारमण पुत्र मुनुसामी नायडु (5) बजरंग एडुकेशनल और सोसल ट्रस्ट (6)
				189/1बी	निजी	नम	440	753. बास्कर पुत्र गोविंदराज (1) कलावथी पत्नी बास्करण (2) दुरवासलु (3) राम मूर्थी (4) पुत्र अप्पावु नायडु बालारमण पुत्र मुनुसामी नायडु (5) बजरंग एडुकेशनल और सोसल ट्रस्ट (6)
				189/2बी	निजी	नम	540	753. बास्कर पुत्र गोविंदराज (1) कलावथी पत्नी बास्करण (2) दुरवासलु (3) राम मूर्थी (4) पुत्र अप्पावु नायडु बालारमण पुत्र मुनुसामी नायडु (5) बजरंग एडुकेशनल और सोसल ट्रस्ट (6)
				190/2	निजी	नम	1189	1136. बास्कर पुत्र गोविंदराज (1) कलावथी पत्नी बास्करण (2) दुरवासलु (3) राम मूर्थी (4) पुत्र अप्पावु नायडु बालारमण पुत्र मुनुसामी नायडु (5) बजरंग एडुकेशनल और सोसल ट्रस्ट (6)
				193/2	निजी	शुष्क	4837	24. जे.जे. पेरूमल पट्टु प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक
				194/3बी2	निजी	शुष्क	1380	976. बालाकृष्णन पुत्र मुरुगन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				199/1बी	निजी	नम	91	143. देवागीअम्मल पत्नी सेंगप पिल्लई
				199/2बी	निजी	नम	764	117. चेल्ला पिल्लई पुत्र अंगेरी पिल्लई
				200/3ए1बी	निजी	नम	55	269. विजया पिल्लई पुत्र कुप्पु पिल्लई
				200/3ए2	निजी	नम	200	581. जयालक्ष्मी पत्नी मुरली
				200/4बी	निजी	नम	105	391. गोविंदराज पुत्र चिन्नप्पा
				209/2ए2	निजी	नम	228	157. नारायण पिल्लई पुत्र रागव पिल्लई
				209/2बी2	निजी	नम	218	58. कुप्पा पिल्लई पुत्र पोन्नूअमी पिल्लई
				210/1बी	निजी	नम	809	1026. कमलावथी पत्नी थंगादुरई
				210/2ए2	निजी	नम	165	306. दशरथन पुत्र सेंचिअप्पन (1) दुरईसामी पुत्र रामासामी पिल्लई (2)
				210/2बी	निजी	नम	100	285. वेनु पिल्लई पुत्र रामासामी पिल्लई
				210/2सी	निजी	नम	150	326. दशरथन पुत्र सेंची पिल्लई (1) दुरईसामी (2) वेनु पिल्लई (3) पुत्र रामासामी पिल्लई
				210/2डी	निजी	नम	900	138. दुरईसामी पिल्लई पुत्र रामासामी पिल्लई
				210/2ई	निजी	नम	900	130. दशरथन पुत्र सेंची पिल्लई
				210/2एफ2	निजी	नम	1850	285. वेनु पिल्लई पुत्र रामासामी पिल्लई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				211/2	निजी	नम	1406	138. दुरईसामी पिल्लई पुत्र रामासामी पिल्लई
				212/2	निजी	नम	3257	330. कुप्पु पिल्लई पुत्र पोन्नुअमी (1) दुरईसामी पुत्र रामासामी पिल्लई (2) दशनथन पुत्र सेंची पिल्लई (3) वेनु पिल्लई पुत्र रामासामी पिल्लई (4)
				213/1बी	निजी	नम	2721	103. सुलोचना पत्नी विजया पिल्लई
				213/3ए2	निजी	नम	2252	213. मुरुगा पिल्लई पुत्र रागव पिल्लई
				213/3एफ	निजी	नम	50	432. मनोहरन पुत्र बालाकृष्णन
				228/1ए2	निजी	नम	554	1025. राधा देवी पत्नी जवाहर
				228/1बी2	निजी	नम	110	1025. राधा देवी पत्नी जवाहर
				228/1सी2	निजी	नम	29	1025. राधा देवी पत्नी जवाहर
				235/1बी	निजी	नम	1444	1028. महेन्द्रन (1) जया चंद्रन (2) मणि (3) शिवचंद्रन (4) राघु (5) पुत्र कृष्णन
				235/2बी	निजी	शुष्क	3265	1028. महेन्द्रन (1) जया चंद्रन (2) मणि (3) शिवचंद्रन (4) राघु (5) पुत्र कृष्णन
				236/1बी	निजी	शुष्क	4267	1028. महेन्द्रन (1) जया चंद्रन (2) मणि (3) शिवचंद्रन (4) राघु (5) पुत्र कृष्णन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				236/2बी	निजी	शुष्क	1391	1028. महेन्द्रन (1) जया चंद्रन (2) मणि (3) शिवचंद्रन (4) राघु (5) पुत्र कृष्णन
				236/3बी	निजी	शुष्क	1345	1028. महेन्द्रन (1) जया चंद्रन (2) मणि (3) शिवचंद्रन (4) राघु (5) पुत्र कृष्णन
				236/4बी	निजी	शुष्क	424	1028. महेन्द्रन (1) जया चंद्रन (2) मणि (3) शिवचंद्रन (4) राघु (5) पुत्र कृष्णन
				237/2बी	निजी	शुष्क	1946	1028. महेन्द्रन (1) जया चंद्रन (2) मणि (3) शिवचंद्रन (4) राघु (5) पुत्र कृष्णन
				238/2ए1बी	निजी	शुष्क	1513	1066. नयाज अहमद पुत्र नाजिर (1) 132. दशरथन नायडु पुत्र पार्थसारथी (2) मुनियम्मा पत्नी पचईयाप्पन (3)
				250/1ए1बी	निजी	शुष्क	5512	40. नरसिम्हन पुत्र कुप्पईया नायडु
				250/5	निजी	शुष्क	100	671. रंगनाथन
				251/1बी	निजी	मनावरी	96	961. विजयकुमार पुत्र सुब्रमण्यन
				251/4	निजी	मनावरी	784	171. रामईया पुत्र कुप्पईया (1) रंगनाथन पुत्र नरसिम्हन (2) रागवन पुत्र रमईया (3)
				251/2बी2	निजी	मनावरी	58	648. मुथुकृष्णन पुत्र दुरईसामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				251/3ए2	निजी	मनावरी	220	234. रंगनाथन पुत्र नरसिम्मालु नायडु (1) 1096 भुवनेश्वरी पत्नी एलुमलाई (2)
				251/3बी2	निजी	मनावरी	66	648. मथु कृष्णन
				263/1ए1बी	निजी	मनावरी	2774	534. जयचंद्रन पुत्र सुदर्शनम
				263/1बी2	निजी	मनावरी	530	534. जयचंद्रन पुत्र सुदर्शनम
				264/1ए2	निजी	मनावरी	2030	533. लक्ष्मीपथी नायडु पुत्र अप्पईया नायडु (1) 944. गनानाप्रकाशम पुत्र कईलासम (2) 995. गनानाप्रकाशम पुत्र कईलासम
				264/1बी2	निजी	मनावरी	1922	185. पुरुषोत्थमा नायडु पुत्र सुब्बईया नायडु
				265/1ए3	निजी	मनावरी	200	879. सी.वी. प्रदीप पुत्र वेलप्पन
				265/1ए1बी	निजी	मनावरी	816	187. रामदास पुत्र पचईयाप्पन नायडु (1) कुप्पुपिल्लई पुत्र पोन्नूसामी पिल्लई (2) 1095. सवीथा पत्नी, प्रदीप
				265/1ए2	निजी	मनावरी	200	187. रामदास पुत्र पचईयाप्पन नायडु (1) कुप्पुपिल्लई पुत्र पोन्नूसामी पिल्लई (2) 1095. सवीथा पत्नी, प्रदीप
				266/1ए2	निजी	मनावरी	21	185. पुरुषोत्थमा नायडु पुत्र सुब्बईया नायडु
				266/1बी2	निजी	मनावरी	1300	185. पुरुषोत्थमा नायडु पुत्र सुब्बईया नायडु
				266/1सी1बी2	निजी	मनावरी	78	1089. रवि पुत्र शिवालिंगम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				266/1सी2	निजी	मनावरी	4100	236. रामासामी पुत्र ईथिराज पिल्लई (1) रामदास पुत्र पचईयप्पा नायडु (2)
				266/2ए2	निजी	मनावरी	650	698. दिल्ली बाबु पुत्र दुरई बाबु नायडु (1) 1166. रंगन पुत्र बंगारु (2) 1167. शिपुरा देवी पत्नी गुना सेकरन (3)
				266/2बी	निजी	मनावरी	1350	185. पुरुषोथमा नायडु पुत्र सुब्बईया नायडु
				266/2सी1बी	निजी	मनावरी	353	136. दुरईबाबु नायडु पुत्र थिरुवेकडा नायडु
				266/3ए2	निजी	मनावरी	2250	1135. जीवारथिना पचई पत्नी मुरली वर्द्धराजन (1) 185. पुरुषोथमा नायडु पुत्र सुब्बईया नायडु (2)
				266/3बी	निजी	मनावरी	150	965. मूर्थी पुत्र शुलुक्कनम
				267/3बी2	निजी	मनावरी	212	834. कन्नाम्मल पत्नी कन्नप्पन
				270/2बी	निजी	शुष्क	582	343. राजा पुत्र कईलाश रेड्डी
				271/2	निजी	शुष्क	268	171. रामईया पुत्र कुपपईया (1) रंगनाथन पुत्र नरसिम्हन (2) रागवन पुत्र रमईया (3)
				277/1ए2	निजी	मनावरी	9	702. गुणासेकर पुत्र दुरई बाबु नायडु
				278/2बी	निजी	शुष्क	3120	1042. सुब्रमणि पुत्र पुरुषोथमा नायडु
				279/2ए2बी	निजी	शुष्क	1400	185. पुरुषोथमा नायडु पुत्र सुब्बईया नायडु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				279/2बी1	निजी	शुष्क	2704	1042. सुब्रमणि पुत्र पुरुषोत्थमा नायडु

[फा. सं. भारताप्रा-एच.क्यू./11013/2010-एलए/नोटिफ/पीआईयू-चेन्नई]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2010

S.O. 2756(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 633 (E), dated the 22nd March, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land, specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four – laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 205 on the stretch of land from Km 0/000 to Km 81/600 (Tiruttani – Chennai Section) in Districts Tiruvallur and Vellore in the State of Tamil Nadu ;

And whereas the substance of the said notification has been published in 'The New Indian Express' and 'Dinamani', both dated the 25th April, 2010, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, two objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

4363 GI/10-3

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 0/000 to Km 81/600 (Tiruttani–Chennai Section) of the National Highway No. – 205 in Tiruvallur District in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey/Sub-division number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tiruvallur	Tiruvallur	Ayathur	106/2	Private	Dry	313	1025. Mahendran (1) Jaya Chandran (2) Mani (3) Siva Chandran (4) Ragu (5) Sons of Krishnan
				115/4A2	Private	Wet	80	96. Shanmugam S/o Poongavana Naicker
				116/1B	Private	Wet	646	96. Shanmugam S/o Poongavana Naicker
				117/2B	Private	Wet	1485	212. Manivannan S/o Jagannatha Naicker
				118/1B	Private	Wet	2872	212. Manivannan S/o Jagannatha Naicker
				118/2B	Private	Wet	1051	211. Kannappa Gramani S/o Raji Gramani
				118/3B	Private	Wet	2057	212. Manivannan S/o Jagannatha Naicker
				119/2	Private	Wet	65	84. Govindasamy Naidu S/o Kannaiya Naidu
				120/1	Private	Wet	1827	96. Shanmugam S/o Poongavana Naicker
				122/1B	Private	Wet	450	245. Ragavan S/o Duraisamy Pillai
				122/2B	Private	Wet	875	23. Kothandan S/o Kuppu Reddy
				188/2	Private	Wet	330	753. Baskar S/o Govindaraj (1) Kalavathy W/o Baskaran (2) Durvasalu (3) Ram Moorthy (4) Sons of Appavu Naidu Balaraman S/o Munusamy Naidu (5) Bajrang Educational and Social Trust (6)
				189/1B	Private	Wet	440	753. Baskar S/o Govindaraj (1) Kalavathy W/o Baskaran (2) Durvasalu (3) Ram Moorthy (4) Sons of Appavu Naidu Balaraman S/o Munusamy Naidu (5) Bajrang Educational and Social Trust (6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				189/2B	Private	Wet	540	753. Baskar S/o Govindaraj (1) Kalavathy W/o Baskaran (2) Durvasalu (3) Ram Moorthy (4) Sons of Appavu Naidu Balaraman S/o Munusamy Naidu (5) Bajrang Educatinal and Social Trust (6)
				190/2	Private	Wet	1189	1136. Baskar S/o Govindaraj (1) Kalavathy W/o Baskaran (2) Durvasalu (3) Ram Moorthy (4) Sons of Appavu Naidu Balaraman S/o Munusamy Naidu (5) Bajrang Educatinal and Social Trust (6)
				193/2	Private	Dry	4837	24. J.J. Perumal Pattu Primary Agriculture Co-Operative Bank
				194/3B2	Private	Dry	1380	976. Balakrishnan S/o Murugan
				199/1B	Private	Wet	91	143. Devagiammal W/o Sengap Pillai
				199/2B	Private	Wet	764	117. Chella Pillai S/o Angeri Pillai
				200/3A1B	Private	Wet	55	269. Vijaya Pillai S/o Kuppu Pillai
				200/3A2	Private	Wet	200	581. Jayalakshmi W/o Murali
				200/4B	Private	Wet	105	391. Govindraj S/o Chinnappa
				209/2A2	Private	Wet	228	157. Narayana Pillai S/o Ragava Pillai
				209/2B2	Private	Wet	218	58. Kuppa Pillai S/o Ponnusamy Pillai
				210/1B	Private	Wet	809	1026. Kamalavathy W/o Thangadurai
				210/2A2	Private	Wet	165	306. Dasarathan S/o Senchiappan (1) Duraismy S/o Ramasamy Pillai (2)
				210/2B	Private	Wet	100	285. Venu Pillai S/o Ramasamy Pillai
				210/2C	Private	Wet	150	326. Dasarathan S/o Senchi Pillai (1) Duraismy (2) Venu Pillai (3) Sons of Ramasamy Pillai
				210/2D	Private	Wet	900	138. Duraismy Pillai S/o Ramasamy Pillai
				210/2E	Private	Wet	900	130. Dasarathan S/o Senchi Pillai
				210/2F2	Private	Wet	1850	285. Venu Pillai S/o Ramasamy Pillai
				211/2	Private	Wet	1406	138. Duraismy Pillai S/o Ramasamy Pillai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				212/2	Private	Wet	3257	330. Kuppu Pillai S/o Ponnuamy (1) Duraisamy S/o Ramasamy Pillai (2) Dasarathan S/o Senchi Pillai (3) Venu Pillai S/o Ramasamy Pillai (4)
				213/1B	Private	Wet	2721	103. Sulochana W/o Vijaya Pillai
				213/3A2	Private	Wet	2252	213. Muruga Pillai S/o Ragava Pillai
				213/3F	Private	Wet	50	432. Manoharan S/o Balakrishnan
				228/1A2	Private	Wet	554	1025. Radha Devi W/o Jawahar
				228/1B2	Private	Wet	110	1025. Radha Devi W/o Jawahar
				228/1C2	Private	Wet	29	1025. Radha Devi W/o Jawahar
				235/1B	Private	Wet	1444	1028. Mahendran (1) Jaya Chandran (2) Mani (3) Sivachandran (4) Raghu (5) Sons of Krishnan
				235/2B	Private	Dry	3265	1028. Mahendran (1) Jaya Chandran (2) Mani (3) Sivachandran (4) Raghu (5) Sons of Krishnan
				236/1B	Private	Dry	4267	1028. Mahendran (1) Jaya Chandran (2) Mani (3) Sivachandran (4) Raghu (5) Sons of Krishnan
				236/2B	Private	Dry	1391	1028. Mahendran (1) Jaya Chandran (2) Mani (3) Sivachandran (4) Raghu (5) Sons of Krishnan
				236/3B	Private	Dry	1345	1028. Mahendran (1) Jaya Chandran (2) Mani (3) Sivachandran (4) Raghu (5) Sons of Krishnan
				236/4B	Private	Dry	424	1028. Mahendran (1) Jaya Chandran (2) Mani (3) Sivachandran (4) Raghu (5) Sons of Krishnan
				237/2B	Private	Dry	1946	1028. Mahendran (1) Jaya Chandran (2) Mani (3) Sivachandran (4) Raghu (5) Sons of Krishnan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				238/2A1B	Private	Dry	1513	1066. Nyaz Ahmed S/o Nazir (1) 132. Dasarathan Naidu S/o Parthasarathy (2) Muniyamma W/o Pachaiyappan (3)
				250/1A1B	Private	Dry	5512	40. Narasimhan S/o Kuppaiya Naidu
				250/5	Private	Dry	100	671. Ranganathan
				251/1B	Private	Manavari	96	961. S. Vijayakumar S/o Subramanyan
				251/4	Private	Manavari	784	171. Ramaiyah S/o Kuppaiyah (1) Ranganathan S/o Narasimhan (2) Ragavan S/o Ramaiyah (3)
				251/2B2	Private	Manavari	58	648. Muthukrishnan S/o Duraisamy
				251/3A2	Private	Manavari	220	234. Ranganathan S/o Narasimmalu Naidu (1) 1096 Buvaneshwari W/o Elumalai (2)
				251/3B2	Private	Manavari	66	648. Muthu Krishnan
				263/1A1B	Private	Manavari	2774	534. Jayachandran S/o Sudharsanam
				263/1B2	Private	Manavari	530	534. Jayachandran S/o Sudharsanam
				264/1A2	Private	Manavari	2030	533. Lakshmi pathi Naidu S/o Appaiyah Naidu (1) 944. Gnanaprakasam S/o Kailasam (2) 995. Gnanaprakasam S/o Kailasam
				264/1B2	Private	Manavari	1922	185. Purushothama Naidu S/o Subbaiyah Naidu
				265/1A3	Private	Manavari	200	879. C.V. Pradeep S/o Velappan
				265/1A1B	Private	Manavari	816	187. Ramadass S/o Pachaiyappa Naidu (1) Kuppupillai S/o Ponnusamy Pillai (2) 1095. Saveetha W/o, Pradeep
				265/1A2	Private	Manavari	200	187. Ramadass S/o Pachaiyappa Naidu (1) Kuppupillai S/o Ponnusamy Pillai (2)
				266/1A2	Private	Manavari	21	185. Purushothama Naidu S/o Subbaiyah Naidu
				266/1B2	Private	Manavari	1300	185. Purushothama Naidu S/o Subbaiyah Naidu
				266/1C1B2	Private	Manavari	78	1089. Ravi S/o Sivalingam
				266/1C2	Private	Manavari	4100	236. Ramasamy S/o Ethiraj Pillai (1) Ramdoss S/o Pachaiyappa Naidu (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				266/2A2	Private	Manavari	650	698. Dilhi Babu S/o Durai Babu Naidu (1) 1166. Rangan S/o Bangaru (2) 1167. Thiripura Devi W/o Guna Sekaran (3)
				266/2B	Private	Manavari	1350	185. Purushothama Naidu S/o Subbaiyah Naidu
				266/2C1B	Private	Manavari	353	136. Duraibabu Naidu S/o Thiruvankada Naidu
				266/3A2	Private	Manavari	2250	1135. Jeevarathina Pachai W/o Murali Varadharajan (1) 185. Purushothama Naidu S/o Subbaiyah Naidu (2)
				266/3B	Private	Manavari	150	965. Moorthy S/o Thulukkanam
				267/3B2	Private	Manavari	212	834. Kannammai W/o Kannappan
				270/2B	Private	Dry	582	343. Raja S/o Kailasa Reddy
				271/2	Private	Dry	268	171. Ramaiyah S/o Kuppaiyah (1) Ranganathan S/o Narasimhan (2) Ragavan S/o Ramaiyah (3)
				277/1A2	Private	Manavari	9	702. Gunasekar S/o Durai Babu Naidu
				278/2B	Private	Dry	3120	1042. Subramani S/o Purushothama Naidu
				279/2A2B	Private	Dry	1400	185. Purushothama Naidu S/o Subbaiyah Naidu
				279/2B1	Private	Dry	2704	1042. Subramani S/o Purushothama Naidu

[F. No. NHAI-HQ/11013/2010-LA/Notif/PIU-Chennai]

S. S. GULIA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

का.आ. 2757(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 884 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के 0/000 कि.मी. से 81/600 कि.मी. (तिरुथानी—चेन्नई सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 25 मई 2010 को "दि न्यू इण्डियन एक्सप्रेस" और "दिनामणि" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-205 के 0/000 कि.मी. से 81/600 कि.मी. तक (तिरुथानी-चेन्नई सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण/उप विभाजन संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तिरुवल्लुर	तिरुवल्लुर	वेप्पामपाट्टु-बी	1/1बी	निजी	शुष्क	1098	195. लोगनाथन पुत्र नारायणसामी
				3/1ए1बी	निजी	शुष्क	997	221. सम्पथ (1), कुट्टियाप्पन (2) पुत्र किरूशनप्पा नाईकर
				3/1ए2ए	निजी	शुष्क	1112	909. गोकुल राम पुत्र दिल्ली बच्चा नायडु
				3/2बी	निजी	शुष्क	1689	45. कुट्टियाम्मल पत्नी दिल्ली नायडु
				3/3बी	निजी	शुष्क	1829	195. लोगनाथन पुत्र नारायणसामी
				3/4बी	निजी	शुष्क	2022	100. दुरईसामी नायडु
				10/2ए2	निजी	शुष्क	879	118. नारायणसामी नायडु पुत्र जगनाथा नायडु
				10/2बी2	निजी	शुष्क	797	99. दीनदयालन पुत्र जगनाथा नायडु
				10/2सी	निजी	शुष्क	1000	217. जया चंद्रन (1), दशरथन (2) पुत्र दिल्ली बच्चा
				10/3ए1	निजी	शुष्क	2550	215. दशरथन पुत्र, दिल्ली
				10/3ए2ए	निजी	शुष्क	2551	217. जयचंदिरन (1), दशरथन (2) पुत्र दिल्ली बच्चन
				14/2	निजी	नम	250	70. चिट्टियाम्मल पत्नी नरसिमायु नायडु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				25/2ए 2	निजी	शुष्क	660	2154. पी. सुब्रमणि
				25/2बी2	निजी	शुष्क	55	5016. पूनम चंद पुत्र बयमारामजी
				26/1बी	निजी	शुष्क	3596	53. गोविंदासामी नायडु पुत्र रमनजुलु नायडु
				26/2ए	निजी	शुष्क	5774	112. नरसिम्मालु नायडु पुत्र कमालनाबा नायडु
				28/2ए1	निजी	शुष्क	3602	52. गोविंदासामी नायडु पुत्र दुरईसामी नायडु
				30/2	निजी	मनावरी	4047	203. वसंथाम्मल पत्नी कोथंदापांनी नायडु
				33/1ए2	निजी	मनावरी	2200	91. दशरथा नायडु
				33/1बी	निजी	मनावरी	1800	10. अथिलक्ष्मीयाम्मल
				33/2ए	निजी	मनावरी	2080	46. कुप्पुसामी नायडु
				59/1बी	निजी	नम	1250	1692. गंथामारी (1), थंगाराज (2)
				59/28	निजी	नम	150	90. धनलक्ष्मी पत्नी श्रीनिवास नायडु
				59/29	निजी	नम	100	90. धनलक्ष्मी पत्नी श्रीनिवास नायडु
				59/30	निजी	नम	100	90. धनलक्ष्मी पत्नी श्रीनिवास नायडु
				59/31	निजी	नम	100	90. धनलक्ष्मी पत्नी श्रीनिवास नायडु
				59/32	निजी	नम	50	90. धनलक्ष्मी पत्नी श्रीनिवास नायडु
				59/33	निजी	नम	50	90. धनलक्ष्मी पत्नी श्रीनिवास नायडु
				59/34	निजी	नम	50	90. धनलक्ष्मी पत्नी श्रीनिवास नायडु
				59/47	निजी	नम	100	2053. टी. देवकी पत्नी डॉ. पी. गोविंदराय
				59/61	निजी	नम	150	2162. वी.जी. मणिकंदन पुत्र वी.आर. गणेशन
				59/62	निजी	नम	150	2162. वी.जी. मणिकंदन पुत्र वी.आर. गणेशन
				59/63	निजी	नम	200	2257. टी. राजगोपालन पुत्र, थिरुवेकटम
				60/32	निजी	शुष्क	620	91. थसरथा नयडु
				60/33	निजी	शुष्क	3740	46. कुप्पुसामी नायडु
				60/2ए 2बी	निजी	शुष्क	3795	1699. अथियाम्मल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				60/3	निजी	शुष्क	400	1765. मारी
				60/4	निजी	शुष्क	150	1765. मारी
				60/19	निजी	शुष्क	50	1874. शजीथा शैन पत्नी, अब्दुल शैन
				60/20	निजी	शुष्क	55	13. अथियाम्मल पत्नी पचायप्पा नाईकर
				60/29	निजी	शुष्क	200	2046. गायत्री रवीन्द्रिरन पत्नी रवीन्द्रिरन
				61/1ए 1	निजी	मनावरी	750	52. गोविंदासामी नायडु पुत्र दुरईसामी नायडु
				61/1बी	निजी	मनावरी	150	1735. मारी
				61/1सी	निजी	मनावरी	150	1736. मारी
				61/1डी	निजी	मनावरी	50	1737. मारी
				61/1ई1	निजी	मनावरी	70	1738. मारी
				61/1एफ1	निजी	मनावरी	70	1739. मारी
				61/2ए1	निजी	मनावरी	6878	1695. नाल्लप्पा नायडु (1) पोन्नप्पा नायडु (2) कांथा मारी (3)
				61/3	निजी	नम	165	1737. मारी
				61/4	निजी	नम	150	1743. कलईसेल्वी
				61/5	निजी	नम	150	1744. राजानमण पुत्र, के. राजगोपाल
				61/6	निजी	नम	150	1745. उषा युराज पत्नी, एम.के. युराज
				61/7	निजी	नम	150	1746. डी. मीरा बाई पत्नी, सी.आर. राजेश्वरण
				61/8	निजी	नम	150	1747. एस. दीपिका पुत्री, पी.जी. संधाना कृष्णन
				61/9	निजी	नम	150	1748. एल. प्रियंका पुत्री, एम. पृथ्वीराज
				61/10	निजी	नम	150	1749. एम.पी. शंथोषी पुत्री, एम. पृथ्वीराज
				61/11	निजी	नम	200	1750. मारी
				61/12ए	निजी	नम	65	1751. मारी
				61/13ए	निजी	नम	62	1752. मारी
				61/14ए	निजी	नम	60	1753. मारी
				61/15ए	निजी	नम	110	1754. मारी
				61/16ए	निजी	नम	110	1755. मारी
				61/17ए	निजी	नम	50	1756. मारी
				61/18ए	निजी	नम	50	1757. मारी
				61/19ए	निजी	नम	55	1758. मारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				61/27	निजी	मनावरी	50	52. गोविंदासामी नायडु पुत्र दुरईसामी नायडु
				61/31	निजी	नम	50	52. गोविंदासामी नायडु पुत्र दुरईसामी नायडु
				61/32	निजी	नम	50	52. गोविंदासामी नायडु पुत्र दुरईसामी नायडु
				61/33	निजी	नम	55	52. गोविंदासामी नायडु पुत्र दुरईसामी नायडु
				61/34	निजी	नम	100	52. गोविंदासामी नायडु पुत्र दुरईसामी नायडु
				61/35	निजी	नम	100	52. गोविंदासामी नायडु पुत्र दुरईसामी नायडु
				61/36	निजी	नम	100	52. गोविंदासामी नायडु पुत्र दुरईसामी नायडु
				61/37	निजी	नम	100	52. गोविंदासामी नायडु पुत्र दुरईसामी नायडु
				61/46	निजी	मनावरी	300	1985. जयलक्ष्मी पत्नी आर. नतेसन
				61/47ए	निजी	नम	56	1986. पी. बालाजी
				61/50ए	निजी	नम	40	2074. वासुकी पत्नी सेल्वकुमार
				61/51ए	निजी	नम	35	2075. ईरबानाबेगम पत्नी नूरथिन शरीफ
				61/54	निजी	नम	200	2345. राजन पुत्र नारायणन
				61/55	निजी	नम	150	2346. वसंथा पत्नी गोविंदन
				61/57ए	निजी	नम	60	2348. जे. श्रीमु पत्नी बाबु
				61/58ए	निजी	नम	60	2349. उमासंकर पुत्र दक्षिणामूर्थी
				61/59ए	निजी	नम	30	2343. नारायण रेड्डी पुत्र थिरुपथी रेड्डी
				61/60ए	निजी	मनावरी	40	2343. नारायण रेड्डी पुत्र थिरुपथी रेड्डी
				61/61	निजी	नम	100	2344. बास्कर राय पुत्र नरेन्द्र बाबु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				62/2	निजी	शुष्क	4763	43. कृशत्तप्पा नायडु (1) 2364. कोईल मणि पुत्र, टी. पोन पंडियन (2) 2166. जी. पारंथामन पुत्र, गोविंदराज (3) 2165. पी.के. शंथाम्मल पत्नी. के.एस. थंकप्पा नाईर (4) 2167. ए. विश्वनाथ राव पुत्र, अथिनारायण राव (5). 2168. टी. गुणासेकरम पुत्र, एम. थंकप्पन (6). 2320. ए. राजेश्वरी पत्नी, रंगनाथन (7) 2321. टी. महालिंगम पुत्र, थिरूपथी (8) 2322. के. सुब्रमणि पुत्र, करणन (9) 2323. आई. कारी खान पुत्र, लिंगन (10) 2324. एम. मुरुगन पुत्र, मनवाहन (11) 2325. जी. चेल्लाकुमार पुत्र, गोविंदराजुलु चेदिटआर (12). 2326. ई. राजकुमार पुत्र ई. एलंगोवन (13). 2327. भुवनेश्वरी पत्नी. बालगंगाहरन (14) 2328. एम. धनराजी पुत्र मुनुस्वामी (15) 2308. आर. नारायणन पुत्र, पी. रमण (16)
				64/1ए 2	निजी	नम	110	76. सुब्बईया नायडु पुत्र सैचईया नायडु
				64/9	निजी	नम	50	2350. के.एस. संकर नारायणन पुत्र सुब्रमणि अय्यर
				64/10	निजी	नम	110	2362. किशोर लाकीलाल मिरपूरी पुत्र लाकीलाल चोपराज मिरपूरी
				64/11ए	निजी	नम	60	2354. रानी पाउल पत्नी पाउल
				64/12ए	निजी	नम	80	2368. रानी पाउल पत्नी पाउल
				64/14	निजी	नम	150	2363. दीपक मिरपूरी पुत्र वासु चोपराज
				64/15ए	निजी	नम	632	76. सुब्बईया नायडु पुत्र सैचईया नायडु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				111/4	निजी	मनावरी	1210	16. ईश्वरन और पुत्र इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड (1) 5143. गोविंदराजन (2) 987 थिरुनवाकरासु (3) 5206 शिवकुमार (4) 470 पद्मा (5) 5310. जनार्धन (6) 5278. पार्थसारथी (7)
				111/2बी	निजी	मनावरी	450	5130. जनार्धन पुत्र. जेयारमण नायडु
				111/2सी	निजी	मनावरी	450	5130. जनार्धन पुत्र. जेयारमण नायडु

[फा. सं. भाराप्र-एच.क्यू./11013/2010-एलए/नोटिफ/पीआईयू-चेन्नई]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2010

S.O. 2757(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 884 (E), dated the 20th April, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land, specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four – laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 205 on the stretch of land from Km 0/000 to Km 81/600 (Tiruttani – Chennai Section) in District Tiruvallur in the State of Tamil Nadu ;

And whereas the substance of the said notification has been published in 'The New Indian Express' and 'Dinamani', both dated the 25th May, 2010, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 0/000 to Km 81/600 (Tiruttani-Chennai Section) of the National Highway No. - 205 in Tiruvallur District in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey/Sub division number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tiruvallur	Tiruvallur	Veppampattu-B	1/1B	Private	Dry	1098	195. Loganathan S/o. Narayanasamy.
				3/1A1B	Private	Dry	997	221. Sampath(1), Kuttiyappan(2) Sons of Kirushnappa Naicker.
				3/1A2A	Private	Dry	1112	909. Gokul Ram S/o. Dilli Batcha Naidu
				3/2B	Private	Dry	1689	45. Kuttiammal W/o. Dilli Naidu.
				3/3B	Private	Dry	1829	195. Loganathan S/o. Narayanasamy.
				3/4B	Private	Dry	2022	100. Duraisamy Naidu.
				10/2A2	Private	Dry	879	118. Narayanasamy Naidu S/o. Jaganatha Naidu.
				10/2B2	Private	Dry	797	99. Dheenadhayalan S/o. Jaganatha Naidu.
				10/2C	Private	Dry	1000	217. Jaya chanderan(1), Dhasarathan(2) Sons of Dilli Batcha.
				10/3A1	Private	Dry	2550	215. Dhasarathan S/o, Dilli
				10/3A2A	Private	Dry	2551	217. Jayachanderan(1), Dhasarathan(2) Sons of Dilli Batcha.
				14/2	Private	Wet	250	70. Chittiyammal W/o. Narasimalu Naidu.
				25/2A2	Private	Dry	660	2154. P. Subramani.
				25/2B2	Private	Dry	55	5016. Poonam chand S/o. Baymaramji
				26/1B	Private	Dry	3596	53. Govindasamy naidu S/o. Ramanjulu Naidu.
				26/2A	Private	Dry	5774	112. Narasimmalu naidu S/o. Kamalanaba naidu
				28/2A1	Private	Dry	3602	52. Govindasamy naidu S/o. Duraisamy naidu.
				30/2	Private	Manavari	4047	203. Vasanthammal W/o. Kothandapani Naidu.
				33/1A2	Private	Manavari	2200	91. Dhasaratha naidu.
				33/1B	Private	Manavari	1800	10. Aathilakshmiyammal
				33/2A	Private	Manavari	2080	46. Kuppusamy naidu.

4363 GI/10-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				59/1B	Private	Wet	1250	1692. Ganthamary(1), Thangaraj(2)
				59/28	Private	Wet	150	90. Dhanalakshmi W/o. Srinivasa Naidu.
				59/29	Private	Wet	100	90. Dhanalakshmi W/o. Srinivasa Naidu.
				59/30	Private	Wet	100	90. Dhanalakshmi W/o. Srinivasa Naidu.
				59/31	Private	Wet	100	90. Dhanalakshmi W/o. Srinivasa Naidu.
				59/32	Private	Wet	50	90. Dhanalakshmi W/o. Srinivasa Naidu.
				59/33	Private	Wet	50	90. Dhanalakshmi W/o. Srinivasa Naidu.
				59/34	Private	Wet	50	90. Dhanalakshmi W/o. Srinivasa Naidu.
				59/47	Private	Wet	100	2053. T. Devaki W/o. Dr.P. Govindarai
				59/61	Private	Wet	150	2162. V.G. Manikandan S/o. V.R. Ganesan
				59/62	Private	Wet	150	2163. V.G. Ganapathy S/o. V.R. Ganesan
				59/63	Private	Wet	200	2257. T. Rajagopalan S/o, Thiruvencatam
				60/32	Private	Dry	620	91. Thasaratha naidu.
				60/33	Private	Dry	3740	46. Kuppusamy naidu.
				60/2A2B	Private	Dry	3795	1699. Aathiyammal
				60/3	Private	Dry	400	1765. Mari
				60/4	Private	Dry	150	1766. Mari
				60/19	Private	Dry	50	1874. Shajeetha shain W/o, Abdul shain
				60/20	Private	Dry	55	13 Aathiyammal W/o. Pachayappa Naicker
				60/29	Private	Dry	200	2046. Gayathri Raveendiran W/o. Raveendiran
				61/1A1	Private	Manavari	750	52. Govindasami naidu S/o. Duraisami naidu.
				61/1B	Private	Manavari	150	1735. Mari
				61/1C	Private	Manavari	150	1736. Mari
				61/1D	Private	Manavari	50	1737. Mari
				61/1E1	Private	Manavari	70	1738. Mari
				61/1F1	Private	Manavari	70	1739. Mari
				61/2A1	Private	Manavari	6878	1695. Nallappa Naidu (1) Ponnappa Naidu (2) Kantha Mary (3)
				61/3	Private	Wet	165	1737. Mari
				61/4	Private	Wet	150	1743. Kalaiselvi
				61/5	Private	Wet	150	1744. Rajaraman S/o, K. Kajagopal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				61/6	Private	Wet	150	1745. Usha yuaraj W/o, M. K. Yuaraj
				61/7	Private	Wet	150	1746. D. Merrai Bai W/o, C. R. Rajeswaran
				61/8	Private	Wet	150	1747. S. Deepika D/o, P.G. Santhana krishnan
				61/9	Private	Wet	150	1748. L. Priyanka D/o, M. Preethiviraj
				61/10	Private	Wet	150	1749. M. P Shanthoshi D/o, M. Preethiveraj
				61/11	Private	Wet	200	1750. Mari
				61/12A	Private	Wet	65	1751. Mari
				61/13A	Private	Wet	62	1752. Mari
				61/14A	Private	Wet	60	1753. Mari
				61/15A	Private	Wet	110	1754. Mari
				61/16A	Private	Wet	110	1755. Mari
				61/17A	Private	Wet	50	1756. Mari
				61/18A	Private	Wet	50	1757. Mari
				61/19A	Private	Wet	55	1758. Mari
				61/27	Private	Manavari	50	52. Govindasamy naidu S/o. Duraisamy naidu.
				61/31	Private	Wet	50	52. Govindasamy naidu S/o. Duraisamy naidu.
				61/32	Private	Wet	50	52. Govindasamy naidu S/o. Duraisamy naidu.
				61/33	Private	Wet	55	52. Govindasamy naidu S/o. Duraisamy naidu.
				61/34	Private	Wet	100	52. Govindasamy naidu S/o. Duraisamy naidu.
				61/35	Private	Wet	100	52. Govindasamy naidu S/o. Duraisamy naidu.
				61/36	Private	Wet	100	52. Govindasamy naidu S/o. Duraisamy naidu.
				61/37	Private	Wet	100	52. Govindasamy naidu S/o. Duraisamy naidu.
				61/46	Private	Manavari	300	1985. Jayalakshmi W/o. R. Natesan.
				61/47A	Private	Wet	56	1986. P. Balaji
				61/50A	Private	Wet	40	2074. Vasuki W/o. Selvakumar
				61/51A	Private	Wet	35	2075. Irbanabegam W/o. Noorthin Sherief
				61/54	Private	Wet	200	2345. Rajan S/o. Narayanan
				61/55	Private	Wet	150	2346. Vasantha W/o. Govindan
				61/57A	Private	Wet	60	2348. J. Srimu W/o. Babu
				61/58A	Private	Wet	60	2349. Umasankar S/o. Dhakshinamurthy.
				61/59A	Private	Wet	30	2343. Narayana Reddy S/o. Tirupthi Reddy
				61/60A	Private	Manavari	40	2343. Narayana Reddy S/o. Tirupthi Reddy

4263 GI/10-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				61/61	Private	Wet	100	2344. Baskar Rao S/o. Narendar Babu.
				62/2	Private	Dry	4763	43. Krishntappa Naidu(1) 2364. Koil Mani S/o, T.Pon Pandian (2) 2166. G. Parandhaman S/o, Govindaraj (3) 2165. P. K. Shanthammal W/o. K. S. Thankappa Nair (4) 2167.A. Viswanatha Rao S/o, Aathinarayan Rao (5).2168. T. Gunasekaram S/o, M. Thankappan (6).2320. A. Rajeswari W/o, Ranganathan (7) 2321.T. Mahalingam S/o, Thirupathi (8) 2322. K. Subramani s/o, Karnan(9) 2323.I. Kari khan S/o, Lingan (10) 2324.M. Murugan S/o, Manavalan (11) 2325.G. Chellakumar S/o, Govindarajulu Chettiar (12). 2326. E. Rajakumar S/o, E. Elangovan (13).2327.Bhuvaneswari W/o, Balagangaharan (14) 2328.. M. dhanrajee S/o, Munuswamy(15) 2308. R. Narayanan S/o, P. Raman (16)
				64/1A2	Private	Wet	110	76. Subbaiya Naidu S/o. Senchaiya Naidu.
				64/9	Private	Wet	50	2350. K.S. Sankara Narayanan S/o. Subiramani Iyyar.
				64/10	Private	Wet	110	2362. Kishore Lakilal Mirpoori S/o. Lakilal Chopraj Mirpoori
				64/11A	Private	Wet	60	2354. Rani Paul W/o. Paul
				64/12A	Private	Wet	80	2368. Rani Paul W/o. Paul
				64/14	Private	Wet	150	2363. Deepak Mirpoori S/o. Vasu Chopraj
				64/15A	Private	Wet	632	76. Subhaiya Naidu S/o. Senchaiya Naidu.
				111/4	Private	Manavari	1210	16. Eswaran & Sons Engeneering Private Ltd.(1), 5143. Govindarajan (2) 987 Thirunavakarasu(3) 5206 Sivakumar(4) 470 Padma(5) 5310. Janarthanan(6) 5278. Parthasarathi (7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				111/2B	Private	Manavari	450	5130. Janarthanan S/o. Jeyaram Naidu
				111/2C	Private	Manavari	450	5130. Janarthanan S/o. Jeyaram Naidu

[F. No. NHAI-HQ/11013/2010-LA/Notif/PIU-Chennai]

S. S. GULIA, Director